

D.A.V PUBLIC SCHOOL,

SRESHTHA VIHAR



CLASS 2

Dear Student,

Albert Einstein once said - "Education is not the learning of facts. It's rather the training of mind to think." And the mind is trained by strengthening the foundation. Let's utilize this time to go back to basics and strengthen the foundation.

To support your learning, to motivate you to become a good human being, to inculcate the right values and life skills in you, your parents and teachers are working for you all round the clock. They are planning and devising techniques to make you 'Better the Best'. So do follow their guidelines and utilize this available time to the fullest. Your teachers have designed interesting tasks for you. A part of this homework will increase your sensitivity too.

Do you remember, we started with the theme 'Let's Not Waste Food' and reinforced it from 18th - 24th May 2020. Now every week we will work on one theme and reinforce it on a daily basis. For the coming weeks, let's follow:

1. 'Greet and Respect Elders' - 25th - 31st May



2. 'Cleaning up the House -Helping Parents with Daily Chores' - 1st - 7th June



3. 'Exercise Everyday' - 8th -14th June



4. 'Pay Gratitude' - 15th -21st June



5. 'Story Time with Parents' - 22nd - 30th June



LET US DEVELOP EMOTIONAL AND ETHICAL RIGHTEOUSNESS.

SUBJECT WISE HOLIDAY HOMEWORK FOLLOWS:

We have divided the work into different zones for all the stimulation. Follow the links to know the work in detail for each day.

Movie Mondays

Terrific Tuesdays

Word wall Wednesdays

Thoughtful Thursdays

Fun Fridays

Scrabble Saturdays

Movie Mondays



Grab your popcorn because it's Movie Monday! Here are videos of some short stories. Watch these videos (one every week) and do the tasks given.

Week 1-1.6.2020: <https://youtu.be/h2Xj-A7HsYE>

Write the story in your own words in 5-6 sentences.

Week 2:-8.6.2020: <https://youtu.be/OVXbdWojByc>

Write any 5 new words with their contextual meaning (meaning you understand after watching the video).

Week 3:15.6.2020 <https://youtu.be/QkaqcgmUlqQ>

Draw and color any one scene that you like the most from the story.

Week 4:22.6.2020 <https://youtu.be/5dQzubDhCwc>

निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए

क. कहानी का नाम

ख. लेखक का नाम



ग. कहानी के मुख्य पात्रों के नाम

घ. कहानी की शिक्षा

Week 5:28.6.2020 <https://youtu.be/PsUrZUz7esk>

Think and write the moral of the story other than the given one.

Terrific Tuesdays



- Use the shape magnifying glass and find objects of different shapes in your house. Make a booklet by following points mentioned hereunder:
 - a) Cover Page - I SPY MY HOUSE
 - B)** Week 1-2.6.2020:: First Page- Draw, name and colour four objects of circle shape. Also do worksheet 3.
 - C)** Week 2-9.6.2020: Second Page - Draw, name and colour four objects of square shape. Also do worksheet 4.
 - D)** Week 3-16.6.2020: Third Page - Draw, name and colour four objects of rectangle shape. Also do worksheet 5.
 - E)** Week 4-23.6.2020: Fourth Page - Draw, name and colour four objects of triangle shape. Also do worksheet 6.
 - F)** Week 5-30.6.2020: Fifth Page - Draw, name and colour four objects of cylindrical shape.

Word wall Wednesdays



- Week 1-3.6.20: Read a new book and underline all the difficult words and make a word wall with your choice of words. Draw pictures wherever you can.
- Week2-10.6.20: भाषा माधुरी में दिए गए पाठ 1 से 3 के कठिन शब्दों पर शब्द दीवार बनाइए.
- Week 3-17.6.20: Make a word wall on any of these topics - addition, subtraction, place value, expanded form or money.
- Week 4-24.6.20: Make a word wall on different food products which we get from plants and animals.

Note: Please use an A3 sheet for making word wall.

Thoughtful Thursdays



- Pen down your thoughts and keep them safe in your vacation journal (refer to the format given in annexure). Do it every week.

Fun Fridays



Week1 :बच्चों! आइए कल्पना करें कि आप डोरीमोन के बेंबू कॉंपटर को लेकर आकाश में घूम रहे हैं, जहाँ पर चंदा मामा और तारें, बादलों के साथ आपका स्वागत कर रहे हैं अब इसी कल्पना के आधार पर इनसे संबंधित एक कविता A-4 साइज़ शीट पर लिखिए व उसे सजाईए. कार्यपत्रक 1 भी कीजिए

Week 2: Collect the wrappers and advertisements of toothpaste, toothbrush, dettol , hair oil, shampoo etc. Make a collage on an A3 size drawing sheet (you can use A3 size old newspaper cutting or cardboard if A3 size drawing sheet is not available.) कार्यपत्रक 2 भी कीजिए

□ **Week 3:** Take an A4 sheet and divide it into four equal parts. Now fold these parts into half. Write a riddle on one half of the card and its answer on the other half. This way you can make 4 riddle cards. Also do worksheet 7.

□ **Week 4:** Number Sense Flowers

Instructions for making Number Sense Flowers

#Make a cut out of the flower with 5 petals.

#Write any 3 digit number in the centre.

Represent the following in petals:

Number name

Expanded form.

Represent that number on abacus.

One more.

One less.

Show number art of any one digit of that number. Also do worksheet 8.

Scrabble Saturdays



- Create a game with the help of your parents and play it with them.

Instructions for making DIY SCRABBLE.

Step 1: Take printouts of the scrabble board and scrabble tiles from the annexure.

Step 2: Cut the scrabble tiles and paste both the tiles and board on a thick paper or cardboard preferably.

Step 3: Distribute 7 tiles to each player and start playing by making words.

Step 4: Each tile is allocated points and different places in the board have bonus points. Calculate the points for every player and write them on the scoreboard.

Step 5: Add all the points and declare the winner.



Hope you would enjoy doing all the activities. Now, remember if you want to achieve:



Present your work beautifully.



Write legibly



Show accuracy



Maintain regularity

Happy Holidays !

Other Instructions:

- On Yoga day (21st June 2020), practice the exercises from the link to stay fit and fine. <https://youtu.be/970YLBkSEc>
- Keep taking the photographs and share the work with your teacher.
- Do your homework regularly and neatly.
- Take assistance only when required.

WORKSHEETS

डी. ए . वी. पब्लिक स्कूल श्रेष्ठ विहार दिल्ली - 92

हिन्दी

कार्यपत्रक 1

नाम _____ कक्षा _____ दिनांक _____

प्रश्न - नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए

आओ बच्चों ! आज हम सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे व उनके विषय में मनोरंजक बातें भी पढ़ेंगे।

क्या आपको पता है कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं जो इस प्रकार हैं I

1. बुध
2. शुक्र
3. पृथ्वी
4. मंग
5. बृहस्पति
6. शनि
7. यूरेनस (अरुण) . नेपच्यून (वरुण)

ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं इनमें से प्रथम चार ग्रह सौर मंडल के अंदर की ओर घूमते हैं व पथरीले होते हैं व बाद के चार ग्रह बाहर की तरफ घूमते हैं। ये गैस से बने हुए हैं I आइए एक बात ओर जानते हैं कि जब धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है तब मौसम में बदलाव होता है जैसे सर्दी व गर्मी व धरती का धुरी पर चक्कर लगाना दिन व रात में बदलाव का कारण है I

1. उन चार ग्रह के नाम लिखिए जो सौर मंडल के अंदर की ओर घूमते हैं

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

ख. मौसम में बदलाव का क्या कारण है



ग. ऊपर दिए गए गद्यांश के आधार पर किन्हीं दो विलोम शब्द के जोड़े लिखिए

1. _____ - _____ 2. _____ - _____

घ. ऊपर दिए गए गद्यांश के आधार पर किन्हीं दो नाम वाले शब्द को लिखिए

1. _____ 2. _____

ङ. रिक्त स्थान भरिये

1. बाहर की तरफ घूमने वाले ग्रह _____ से बने होते हैं I

2. धरती _____ के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं I

डी. ए . वी. पब्लिक स्कूल श्रेष्ठ विहार दिल्ली - 92

कार्यपत्रक 2

नाम _____ कक्षा _____ दिनांक _____

प्रश्न - चित्र देखकर सहायक शब्दों की मदद से कहानी पूरी कीजिए और एक शीर्षक दीजिए।



खिलाता , मीठे , शरीर , जामुन , सैर , बंदर , मगरमच्छ , इरादा , नदी पत्नी , तैयार

नदी के किनारे एक बहुत बड़ा ----- का पेड़ था। उस पेड़ पर एक -----
----- रहता था। नदी में एक ----- रहता था। बंदर और मगरमच्छ
आपस में मित्र थे। बंदर मगरमच्छ को पेड़ से मीठे-मीठे जामुन तोड़कर -----
- था। एक दिन मगरमच्छ कुछ जामुन अपनी --- ----- के लिए ले गया।
मगरमच्छ की पत्नी जामुन खाकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, यह जामुन तो बहुत
मीठे हैं। जो बंदर रोज़ इतने

..----- जामुन खाता है. उसका दिल कितना मीठा होगा!' यह कहकर उसने
मगरमच्छ से बंदर का दिल लाने को कहा। अगले दिन मगरमच्छ ने बंदर से कहा,

'चलो मित्र! आज मैं तुम्हें ----- की ----- करवा कर लाता हूँ।

बंदर तुरंत

----- हो गया। नदी के बीच पहुँचकर मगरमच्छ ने कहा, 'मित्र! मेरी पत्नी कहती है कि बंदर हर रोज इतने मीठे जामुन खाता है, उसका दिल बहुत मीठा होगा। बंदर एक ही पल में मगरमच्छ का ----- समझ गया। उसने बहुत चतुराई से कहा, मित्र! यह बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। वापस चलो, पेड़ पर जाकर दिल ले आते हैं। वे जैसे ही नदी के किनारे वापस पहुँचे तो बंदर कूदकर पेड़ पर चढ़ गया और बोला, 'मूर्ख! सभी का दिल उनके -- ----- में ही होता है। तुम मुझे मारना चाहते थे। आज से हमारी मित्रता समाप्त होती है। इस तरह बंदर ने समझदारी और होशियारी से अपनी जान बचाई।

कहानी का शीर्षक: _____

Name : _____

Class: II _

Date _____

Worksheet - 3



How to Plant Seeds



Directions: Using the words in the box, fill in the blanks below.

sun water pot soil
seeds hole finger plant



Place some _____  into a _____ 

Make a _____  with your _____ 

Drop some _____  into the _____ 

Cover the _____  with _____ 

Pour _____  into the _____ 

Give your _____  lots of _____ 

Wait for your new _____  to grow!

Name : _____

Class: II _

Date: _____

Worksheet -4

Complete the sentences below



1) My favourite food is _____
because _____.

2) My favourite restaurant is

_____.

3) On my birthday I like to eat

_____.

4) During the summer I always eat _____.

5) The meal I like to eat with my family most is

_____.

6) Some foods I can make all by myself are _____.

7) The food I like to share most with my friends is

_____.

8) The favourite food of my parents is

_____.




Worksheet-5

Name : _____

Class: II _

Date: _____

Where is...?



in , on, under, next to, in front of,

1. Where is the plant?
2. Where is the blanket?
3. Where are the books?
4. Where is the school bag?
5. Where are the slippers?
6. Where is the vase?
7. Where is the carpet?
8. Where is the mirror?
9. Where is the bin?
10. Where are the pencils?
12. Where is the poster?

Worksheet 6

Name : _____

Class: II _

Date: _____

Alfred's daily routine

Read the text carefully.

Alfred is an American boy. He lives in Los Angeles, California. He lives with his family in a modern house. He is eleven years old and he has got an older brother, David, and a younger sister, Emma.

He starts his day at about half past seven. He gets up, goes to the bathroom, takes a shower, brushes his teeth and get dressed. Then he has breakfast and at a quarter to eight he leaves home and catches the bus to school.

Classes begin at half past eight. He usually has lunch at the school canteen at half past twelve. After school, at a quarter past five, he goes home. There he does his school homework and when he finishes it he helps his Mum laying the table. At half past seven the family dines together.

Alfred is a very helpful boy, so he helps his mother cleaning up everything after dinner.

He usually watches TV for a while after dinner and at about ten o'clock the most he brushes his teeth again, puts on his Spider Man pajamas and goes to bed. His parents always kiss him good night before he gets asleep. Alfred is a very happy boy!



1 True or False?

1. Alfred is an American boy. _____
2. He lives in a modern flat. _____
3. He is eleven years old. _____
4. He has got two brothers. _____
5. Alfred wakes up at eight o'clock. _____
6. He walks to school. _____
7. His classes begin at half past eight. _____
8. Alfred and his family have dinner at half past seven. _____

2 Match the antonyms.

- | | | |
|----------|---|-----------------|
| modern | • | • enters |
| older | • | • alone |
| starts | • | • end |
| leaves | • | • old-fashioned |
| begin | • | • unhappy |
| together | • | • younger |
| helpful | • | • finishes |
| happy | • | • unhelpful |

3 Answer the following questions.

1. Where does Alfred live? -----
2. What's his sister's name? -----
3. What time does he wake up? -----
4. Does he have breakfast at home? -----
5. What time does he leave home? -----
6. Where does he have lunch? -----
7. When does he return home? -----
8. Does he make homework at school or at home? -----
9. Is he a helpful boy? -----
10. What about you? What's your daily routine like? -----

D.A.V PUBLIC SCHOOL, SRESHTHA VIHAR

Worksheet 7

Name : _____

Class: II _

Date: _____

WHERE IS MY PLACE?

Q1(a) Read the numbers below. Look at the underlined digit, what place it is in? Write H as Hundreds, T as Tens, O for Ones for the correct place?

4<u>5</u>6 _____ _____	<u>5</u>27 _____ _____	18<u>4</u> _____ _____	<u>3</u>75 _____ _____
<u>6</u>25 _____ _____	7<u>1</u>3 _____ _____	3<u>6</u>7 _____ _____	<u>8</u>55 _____ _____
8<u>6</u>3 _____ _____	<u>1</u>95 _____ _____	2<u>9</u>4 _____ _____	<u>6</u>48 _____ _____
<u>2</u>75 _____ _____	<u>6</u>62 _____ _____	<u>7</u>65 _____ _____	8<u>7</u>6 _____ _____
8<u>0</u>3 _____ _____	5<u>6</u>7 _____ _____	<u>7</u>36 _____ _____	<u>5</u>93 _____ _____



Q1 (b) Also, write the number names of the given numbers.

Q2) Circle True if the statement is true and circle False if the statement is false.

a)	369 is same as 3 hundreds, 6 tens and 9 ones.	True	False
b)	105 is same as 1 Tens and 5 ones.	True	False
c)	537 is same as 5 tens,3 ones and 7 hundreds.	True	False
d)	333 is same as 3 hudreds, 3 tens and 3 ones.	True	False
e)	981 is same as 9 hundreds, 8 ones and 1 tens.	True	False

Q3) Write the following numbers in Expanded Form.

a) 112-

b) 765-

c) 999-

d) 150-

e) 207-

f) 483-

NAME: _____

CLASS: 2 _____

Worksheet 8


Q1) Fill in the blanks:

- (1) 12 months make a _____.
- (2) Calendar has _____ months.
- (3) First month is _____ and last month is _____.
- (4) After December comes _____.
- (5) The total duration of day time and night time makes a _____.
- (6) Seven days make a _____.
- (7) There are _____ numbers on the face of a clock. They are from _____ to _____.
- (8) The clock has _____ hands.
- (9) Hour hand goes round the clock in _____.
- (10) Minute hand goes round the clock in _____.
- (11) When you have to wake up very early in the morning, you set the _____
_____ in a clock.
- (12) Some clocks have a third needle that moves very fast. It is called the
_____.

Q2) Follow the pattern:

a)	Add 2 five times	$2+2+2+2+2$	10
b)	Add 3, six times		
c)	Add 4, seven times		
d)	Add 5, four times		
e)	Add 6, three times		
f)	Add 7, five times		
g)	Add 8, two times		
h)	Add 9, six times		

ANNEXURES

TRIPLE WORD SCORE			DOUBLE LETTER SCORE				TRIPLE WORD SCORE
	DOUBLE WORD SCORE				TRIPLE LETTER SCORE		
		DOUBLE WORD SCORE				DOUBLE LETTER SCORE	
DOUBLE LETTER SCORE			DOUBLE WORD SCORE				DOUBLE LETTER SCORE
				DOUBLE WORD SCORE			
	TRIPLE LETTER SCORE				TRIPLE LETTER SCORE		
		DOUBLE LETTER SCORE				DOUBLE LETTER SCORE	
TRIPLE WORD SCORE			DOUBLE LETTER SCORE				

A1

A2

A ₁	A ₁	A ₁	A ₁	A ₁	A ₁	A ₁	A ₁	A ₁
B ₃	B ₃	C ₃	C ₃	D ₂	D ₂	D ₂	D ₂	E ₁
E ₁	E ₁	E ₁	E ₁	E ₁	E ₁	E ₁	E ₁	E ₁
E ₁	E ₁	F ₄	F ₄	G ₂	G ₂	G ₂	H ₄	H ₄
I ₁	I ₁	I ₁	I ₁	I ₁	I ₁	I ₁	I ₁	I ₁
J ₈	K ₁₀	L ₁	L ₁	L ₁	L ₁	M ₂	M ₂	N ₁
N ₁	N ₁	N ₁	N ₁	N ₁	O ₁	O ₁	O ₁	O ₁
O ₁	O ₁	O ₁	O ₁	P ₃	P ₃	Q ₈	R ₁	R ₁
R ₁	R ₁	R ₁	R ₁	S ₁	S ₁	S ₁	S ₁	T ₁
T ₁	T ₁	T ₁	T ₁	T ₁	U ₁	U ₁	U ₁	U ₁
V ₄	V ₄	W ₁₀	W ₁₀	X ₁₀	Y ₁₀	Y ₁₀	Z ₁₀	

D.A.V. PUBLIC SCHOOL, SRESHTHA VIHAR

My Vacation Journal – Week 1

I helped my parents by...

My favorite part of this week was...

D.A.V. PUBLIC SCHOOL, SRESHTHA VIHAR

My Vacation Journal – Week 2

This week I...

The best thing I ate was...

My favorite activity of the week was...

D.A.V. PUBLIC SCHOOL, SRESHTHA VIHAR

My Vacation Journal – Week 3

I would like to...

**What I didn't like about
this week...**

My favorite activity of the week was...

D.A.V. PUBLIC SCHOOL, SRESHTHA VIHAR

My Vacation Journal – Week 4

I helped my parents by...

**New thing that I learned
was...**

My favorite activity of the week was...

